

Adjustments :

- (i) The value of closing stock on 30th September, 2016 was ₹ 34,220.
- (ii) Provision for Bad and Doubtful Debts is to be kept at ₹ 500.
- (iii) Depreciation on Plant and Machinery @ 10% p.a.
- (iv) Maintain a Provision for Discount on Debtors and Creditors @ 2%.
- (v) Commission Received in Advance ₹ 200.
- (vi) Salary Outstanding for one month. **14**

निम्नलिखित तलपट से व्यापार तथा लाभ और हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए :

आर्थिक चिट्ठा

30 सितंबर, 2016 की स्थिति के अनुसार

विवरण	देनदार शेष	लेनदार शेष
	₹	₹
पूँजी	----	1,00,000
संयंत्र और मशीनरी	78,000	---
क्रय तथा विक्रय	77,425	1,27,000
1 जन., 2016 को लिया गया 10% ऋण	---	20,000
वापिसी	1,000	750

Roll No.

Exam Code : J-21

Subject Code—51602

B.B.A. EXAMINATION

(Batch 2018 Onwards)

(First Semester)

FINANCIAL ACCOUNTING

BBA-105

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 70

Note : Attempt *Five* questions in all. Q. No. **1** is compulsory. All questions carry equal marks.

कुल **पाँच** प्रश्नों के उत्तर दीजिए । प्रश्न क्र. **1** अनिवार्य है । सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।

Unit I

इकाई I

- 1.** What are the characteristics of accounting ?
Explain briefly the advantages and limitations of accounting. **14**

लेखांकन की क्या विशेषताएँ हैं ? इसके लाभों तथा सीमाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए ।

2. What is Process of Accounting ? Explain various steps followed in the process of accounting. **14**

लेखांकन की प्रक्रिया क्या है ? लेखांकन प्रक्रिया में अपनाये जाने वाले विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए ।

Unit II

इकाई II

3. What is the meaning of Written Down Value Method of providing depreciation ? Discuss the merits and demerits of providing depreciation by Written Down Value Method. **14**

मूल्य ह्रास लगाने की अपलिखित मूल्य विधि का क्या अर्थ है ? अपलिखित मूल्य विधि द्वारा मूल्य ह्रास लगाने के गुण तथा अवगुणों का वर्णन कीजिए ।

4. From the following Trial Balance, prepare Trading and Profit and Loss Account and Balance Sheet :

Trial Balance

As on 30th September, 2016

Particulars	Dr. Balance ₹	Cr. Balance ₹
Capital	---	1,00,000
Plant & Machinery	78,000	---
Purchases and Sales	77,425	1,27,000
10% Loan taken on 1st Jan., 2016	---	20,000
Returns	1,000	750
Opening Stock	30,000	---
Sundry Debtors and Creditors	45,000	25,000
Salary for 11 months	7,700	---
Commission	--	1,150
Manufacturing Wages	10,000	---
Carriage Outwards	1,200	---
Provision for Doubtful Debts	--	525
Rent, Rates and Taxes	10,000	---
Advertisement	2,000	---
Cash-in-hand	6,900	---
Sales tax collected	---	12,000
Sales tax paid	10,000	---
Furniture	7,200	---
Total	<u>2,86,425</u>	<u>2,86,425</u>

प्रारम्भिक स्टॉक	30,000	---
विविध देनदार तथा लेनदार	45,000	25,000
11 महीने के लिए वेतन	7,700	---
कमीशन	--	1,150
निर्माणों मजदूरी	10,000	---
जावक भाड़ा	1,200	---
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	--	525
किराया, दर तथा कर	10,000	---
विज्ञापन	2,000	---
हस्तस्थ रोकड़	6,900	---
विक्रय कर संग्रहित किया	---	12,000
विक्रय कर भुगतान	10,000	---
फर्नीचर	7,200	---
कुल	<u>2,86,425</u>	<u>2,86,425</u>

समायोजन :

- (i) 30 सितम्बर, 2016 को अन्तिम स्टॉक का मूल्य ₹ 34,220 था ।
- (ii) अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान ₹ 500 जाना है ।

- (iii) संयंत्र तथा मशीनरी पर मूल्य ह्रास @ 10% वार्षिक ।
- (iv) देनदारों और लेनदारों पर @ 2% की दर से छूट का प्रावधान बनाए रखना ।
- (v) अग्रिम कमीशन प्राप्त किया ₹ 200 ।
- (vi) एक माह का बकाया वेतन ।

Unit III इकाई III

5. Distinguish between the following : 14

- (i) Errors of Omission and Errors of Commission.
- (ii) Errors of Commission and Errors of Principle.

निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए :

- (i) चूक की त्रुटियाँ और कमीशन की त्रुटियाँ
- (ii) कमीशन की त्रुटियाँ और सिद्धांत की त्रुटियाँ ।

6. What are the journal entries when no separate books of Joint Venture Accounts are maintained ? 14

जर्नल प्रविष्टियाँ क्या हैं जब संयुक्त उपक्रम खातों की अलग पुस्तकें नहीं रखी जाती हैं ?

Unit IV इकाई IV

7. Define Consignment. Give journal entries in respect of consignment transactions in the books of consignor and consignee. 14
प्रेषण की परिभाषा दीजिए । प्रेषक और प्रेषिती की पुस्तकों में प्रेषण लेन-देन के संबंध में रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए ।

8. What do you understand by Hire Purchase System ? Is it credit sale ? Distinguish between Hire Purchase System and Installment Purchase System. 14

किराया क्रय प्रणाली से आप क्या समझते हैं ? क्या यह क्रेडिट विक्रय है ? किराया क्रय पद्धति तथा किस्त खरीद प्रणाली में अंतर बताइए ।